



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1939 (श०)

(सं० पटना ९२०) पटना, मंगलवार, १० अक्टूबर २०१७

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

१० अक्टूबर २०१७

एस०ओ० २०१, दिनांक १० अक्टूबर २०१७—बिहार गजट के असाधारण अंक, संख्या पटना ८८१, दिनांक २१ सितम्बर, २०१७ द्वारा प्रकाशित बिहार सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८१ दिनांक २१ सितम्बर, २०१७ के हिन्दी पाठ के पृष्ठ संख्या १ पर, खंड (क) में “पचास प्रतिशत” के स्थान पर “इक्यावन प्रतिशत” पढ़ा जाए।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-२०/२०१७-३६९०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) ९२०-५७१+१०-८०८०८०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>